

प्रश्नपत्र-IV(B)

5178 B NEW

पर्यावरण और समाज

इकाई -I

मूल मुद्दे और उपागम

- (a) पारिस्थितिकी और समाज के अध्ययन का महत्त्व
- (b) विकास और पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध
- (c) अवधारणात्मक स्पष्टता : सामाजिक पारिस्थितिकी, टिकाऊ विकास एवं टिकाऊपन
- (d) उपागम : गांधीवादी, सामाजिक संरचनावाद, उपयुक्त तकनीकी, पर्यावरणीय नारीवाद

इकाई -II

जन और प्राकृतिक संसाधन

- (a) जल : जनसंसाधनों की कमी और प्रदूषण, जल का असमान वितरण (व्यावसायिक फसल, औद्योगिक उपयोग, शक्ति उत्पादन में जल का उपयोग) बड़े बाँध विवाद, जल का निजीकरण
- (b) वन : औपनिवेशिक नीति, खनन, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधनों में परिवर्तन, वनवासियों समुदायों के अधिकार, संयुक्त वन प्रबन्धन
- (c) जमीन: आधुनिक तकनीक, हरित क्रान्ति, सेज (SEZ) का पर्यावरण और लोगों के लिए क्रियान्वयन

इकाई -III

पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएँ

- (a) पर्यावरण प्रदूषण : वायु, जल, ध्वनि, भूमि और रेडियो एक्टिव प्रदूषण
- (b) नगरीय पर्यावरण की समस्याएँ (प्रदूषण, स्वास्थ्य, औद्योगिक दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस कांड)
- (c) खाद्यान्न मुद्दे और विमर्श

(d) जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग

इकाई –IV

पर्यावरणीय आन्दोलन की भूमिका, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी और राज्य

- (a) पर्यावरणवाद के विकास का संक्षिप्त परिचय, रोम रिपोर्ट, विकास की सीमाएँ, ब्रंटलैण्ड रिपोर्ट स्टॉकहोम 1972, रियो 1992, जौहन्सबर्ग 2002
- (b) भारत में पर्यावरणीय आन्दोलन : चिपको आन्दोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, खेजड़ी आन्दोलन
- (c) पर्यावरणीय कानून और राज्य नीतियाँ

Paper IV (B)
5178 B NEW
Environment and Society
UNIT - I

Basic issues and Approaches :

- (a) Importance of the study of ecology and society
- (b) The relation between Environment and development
- (c) Conceptual clarification : Social ecology, sustainable development, sustainability
- (d) Approaches: Gandhian, Social Constructionalism, Appropriate technology, Eco-feminism.

UNIT II

People and Natural resources:

- (a) Water : Depleting water resources and pollution, Unequal distribution of water (Utilization of water for commercial crops, industrial use, power generation), the big dam debates, privatization of water
- (b) Forest : Colonial policy, diverting resources for mining and other commercial and industrial use, rights of forest dwelling communities, Joint Forest management
- (c) Land : Modern technology, green revolution, SEZ and its implications for the environment and people.

UNIT III

Environmental Issues and problems

- (a) Environmental Pollution : Air, Water, Noise , Land and Radioactive Pollution
- (b) Problems of urban environment: Pollution, health, industrial accidents (e.g. Bhopal), occupational hazards
- (c) Food issues and debates
- (d) Climate change / Global warming

UNIT IV

Role of Environmental Movements, International agencies and the state

- (a) Brief introduction to growth of environmentalism; club Of Rome report, limits to Growth, Bruntland Report stockholm 1972, Rio 1992,Johnnesburg 2002.
- (b) Environmental Movements in India – Chipko, Narmada Bachao Aandolan, Khejdi Andolan.
- (c) Environmental Laws and state policies.

Prescribed Readings:

- (1) Chandan R.C. : Environmental Awareness , Kalyani Publishers,1998
- (2) Agarwal S.K. Environmental Issues and themes, APH publishing corporation
- (3) Gadgil, Madhav and Ramchandra Guha, Ecology and Equity; The use and abuse of nature in contemporary India, New Delhi, OUP, 1996
- (4) Gole Prakash, Nature conservation and sustainable development in India, Rawat publications jaipur and new Delhi
- (5) Guha Ramchandra, Social Ecology,New Delhi, 1994
- (6) Shiva V. 1991, Ecology and politics of survival, UN. University press and sage publication
- (7) रवीन्द्र कुमार:पर्यावरण प्रदूषण,हिन्द युग्म 2016
- (8) Shiva vandna, 1988 Staying Alive , Kali for Women, New Delhi